



# महंत बाबू भारती दशनाम गोस्वामी समाज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित

संजीवनी टुडे

## मंदिर माफ़ी डोली भूमि पर आंदोलन की रुपरेखा बनाई

जयपुर। राजस्थान दशनाम गोस्वामी सभा समिति जयपुर की प्रदेश कार्यकारिणी आम सभा जयपुर में आज संपन्न हुई, सभा में महंत बाबू भारती को पुनः प्रदेश अध्यक्ष पद पर चुना गया इससे पूर्व सम्बोधन कर महंत बाबू भारती ने अपनी पूरी कार्यकारिणी भंग कर स्वयं ने आम सभा में अपना त्यागपत्र देकर अन्य किसी युवा को अध्यक्ष हेतु चुने जाने की अपील की, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारती का त्यागपत्र मंजूर कर लिया एवं अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ महेश गिरी ने महंत बाबू भारती के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका युवा प्रदेश अध्यक्ष विनोद गिरी राष्ट्रीय सचिव हंसराज गोस्वामी युवा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पुरी महंत पदम भारती सहित सैकड़ों प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से महंत बाबू भारती को प्रदेश



अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया, नागौर से विजय पुरी को कोषाध्यक्ष चुना गया, आमसभा में दशनाम गोस्वामी समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बाबू भारती ने राज्य सरकार से आदि शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज

कल्याण बोर्ड गठन की मांग की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया राज्य में आजादी पूर्व राजा महाराजाओं द्वारा संत महात्माओं को उनकी भक्ति शक्ति प्रतिष्ठा के कारण मंदिर माफ़ी पुण्यार्थ कृषि भूमि, डोली भूमि, मठ मंदिर दिए गए और उनसे लाखों

परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन 13/ 12/ 1991 में शेखावत सरकार ने एक परिपत्र जारी कर लाखों बीघा माफ़ी भूमि में खोतेदारी से नाम विलोपित कर भगवान के नाम दर्ज कर दिया इस लाखों परिवारों में व्यापक रोष है सरकार /13 12/ 1991 के आदेश को निरस्त कर पूर्ण खोतेदारी अधिकार देवे, प्रदेश अध्यक्ष ने बताया की राज्य सरकार के परिपत्र 12/9/2018 की संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर आज तक पालना नहीं कर रहे है, राज्य सरकार ने समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया तो पुरे राजस्थान में आंदोलन किया जायेगा, इससे पूर्व जल्द मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से गोस्वामी, नाथ, योगी, पुजारियों की एक संयुक्त समिति का गठन कर भेट कर लाखों परिवारों से जुड़े इस गंभीर विषय पर सरकार से वार्ता करेंगे, भारती ने कहा कि दशनाम गोस्वामी समाज में अंतिम संस्कार मिट्टी में समाधि से होता है शमशान भूमि के लिए भूमि नहीं होने के कारण घरों खेतों

में समाधि देनी पड़ती है राज्य सरकार से सभी जिलों में शमशान भूमि की भूमि आवंटन करने की मांग की, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ महेश गिरी ने सोशल मिडिया के दुरुपयोग पर चिंता प्रकट किया, दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को छोड़ने, बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा पर ध्यान देने पर बोल दिया, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विनोद गिरी ने युवाओं को संस्कारवान होने की शिक्षा देने की बात कही, हंसराज गोस्वामी एवं विजयपुरी ने कोटा छात्रावास भवन के निर्माण में प्रत्येक जिले से एक-एक कमरा निर्माण की बात कही, प्रदेश महामंत्री जस्राम गोस्वामी ने ओबीसी वर्ग में वर्गीकरण एवं जयपुर में गहलोट सरकार के आखिरी कैबिनेट में समाज छात्रावास के लिए भूमि आवंटन जो की गई उसका आमंत्रण पत्र जारी करने की मांग की आम सभा में राज्य के जिलों से बड़ी संख्या में सैंकड़ों प्रतिनिधि उपस्थित रहे, सर्व सम्मती से प्रदेश अध्यक्ष को जल्दी नई कार्यकारिणी गठन के लिए अधिकार दिया।

## मंजू चौहान के जन्मदिन पर विद्याधर नगर विधानसभा में स्नेह मिलन समारोह में पहुंचे नेता

संजीवनी टुडे

जयपुर। प्रदेश महासचिव मंजू चौहान (जेरटी) के जन्मदिवस पर आयोजित स्नेह मिलन समारोह विद्याधर नगर में शामिल हो कर शुभकामनाएं प्रेषित की इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस जयपुर शहर जिला अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी हिंडौन की विधायक अनिता जाटव महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राखी गौतम राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना संगठन के जिला अध्यक्ष नारायण सिंह दिवराणा रॉयल राजपूत संगठन जयपुर राष्ट्रीय संरक्षिका रानीसा महेंद्र कंवर प्रदेश संरक्षिका राणीसा महेंद्र कंवर प्रदेश अध्यक्ष ललितेश शेखावत और पधाधिकारी महिला शक्ति पूर्व चेयरमैन वनत बोर्ड आबिद



कागजी पूर्व उपाध्यक्ष युवा बोर्ड सुशील पारीक पूर्व उपाध्यक्ष विप्रकल्याण बोर्ड मंजू शर्मा पूर्व प्रदेश सचिव महेंद्र खेड़ी पार्षद सुमित मिश्रा सोमप शर्मा किशन अजमेरा राजेश गुर्जर लादुराम दुलारिण नसरीन बानो संजना गुजराज ब्लॉक अध्यक्ष बन्नी नारायण कुमावत हरेन्द्र जादौन जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी के पधाधिकारी पार्षद प्रत्याशी मंडल अध्यक्ष वाई अध्यक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता महिला शक्ति युवाओं और आमजन ने मंजू चौहान को जन्मदिवस की शुभ कामनाएं प्रेषित की।

## खबरें फटाफट

### खेल सप्ताह के तहत हो रहा है खेलों का आयोजन



संजीवनी टुडे

राजगढ़ (अलवर) राजकुमार गुप्ता। करबे के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल सप्ताह के आयोजन के दूसरे दिन श्रमदान और ग्रामीण अंचल में लोकप्रिय परंपरागत खेलों का आयोजन प्राचार्य डॉ के एल मीना की मौजूदगी में किया गया। खेल प्रभारी डॉ भगत सिंह ने बताया कि बालिका वर्ग में रुमाल झपट्टा प्रतियोगिता पीटी उपा टीम एवं पी.वी. सिंधु टीम के मध्य आयोजित हुई जिसमें पीटी उपा टीम की दिव्यांशी विजय विजेता रही। सतोलिया प्रतियोगिता में खुशी राजपूत टीम विजय रही। इस अवसर पर निर्णायक मंडल सदस्य डॉ अमप्रकाश मीना एवं डॉ शिव शर्मा, खेल संयोजक डॉ जगदीश मीना, सहसंयोजक डॉ आंचल मीणा, डॉ प्रकाश चंद मीणा, छवी शर्मा, सीमा बलाई, दिव्या सेन, मोहनलाल सैनी, कृष्ण कुमार मीणा सहित खिलाड़ी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

### श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर स्कूल में हुआ दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन



संजीवनी टुडे

राजगढ़ (अलवर) राजकुमार गुप्ता। मंगलवार को करबे के कारोठ रोड़ पर स्थित भारतीय विद्या पीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगलवार को भारतीय विद्या पीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी उमंग व श्रद्धा के साथ मनाया गया। विद्यालय के नरहे मुने बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय में गोविंदा आला रे आला रे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। विद्यालय के निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि स्कूल के नरहे मुने बच्चों के द्वारा दही हांडी फोड़ी गई। उन्होंने बताया कि विद्यालय में शिक्षक के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी बड़ी धूमधाम से कराई जाती है। विद्यालय की छोटी-छोटी बालिकाओं द्वारा भजनों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक दिनेश कुमार, पूर्णिमा सैन, प्रीति विजय, चंचल सहित शिक्षक सहित बच्चे उपस्थित रहे।

### परंपरागत खेलों का हुआ आयोजन



संजीवनी टुडे

राजगढ़। स्थानीय राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ में राष्ट्रीय खेल सप्ताह के आयोजन के दूसरे दिन श्रमदान और ग्रामीण अंचल में लोकप्रिय परंपरागत खेलों का आयोजन प्राचार्य डॉ. के. एल. मीना की मौजूदगी में किया गया। खेल प्रभारी डॉ. भगत सिंह ने बताया कि बालिका वर्ग में रुमाल झपट्टा प्रतियोगिता में पी.टी. उपा टीम एवं पी.वी. सिंधु टीम के मध्य आयोजित हुआ, जिसमें पी.टी. उपा टीम की दिव्यांशी विजय विजेता रही। सतोलिया प्रतियोगिता में खुशी राजपूत टीम विजय रही। इस अवसर पर निर्णायक मण्डल सदस्य डॉ. अमप्रकाश मीना एवं डॉ. शिव शर्मा, खेल संयोजक डॉ. जगपूल मीना, सह संयोजक डॉ. आंचल मीना, डॉ. प्रकाश चंद मीना एवं छवि शर्मा, सीमा बलाई, दिव्या सैन, मोहन लाल सैनी, कृष्ण कुमार मीना आदि खिलाड़ी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

## चाकसू में चलती कार से युवती के चिल्लाने पर आरटीओ व पुलिस की हुई परेड



संजीवनी टुडे

चाकसू। यहां मंगलवार को हाइवे पर चलती कार से युवती के चिल्लाने पर आरटीओ उड़नरस्ते ने कार से पीछा किया और जब कार नहीं रुकी तो उड़नरस्ते पर तैनात निरीक्षक की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की गई और वही नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने स्कार्पियो कार को रुकवाकर कार सवार युवती को दस्तयाव किया गया लेकिन पृष्ठताछ में युवती व युवक आपस में दोस्त निकले जिससे पुलिस ने तहत की सांस ली गई और वही मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार

होकर जयपुर से सर्वाधीनपुर दोनों युवक व युवती जा रहे थे। रास्ते में दोनों के बीच आपसी कहासुनी के चलते चिल्लाने की आवाज पर आरटीओ व पुलिस ने कार का पीछा करके रुकवाई और वही युवती ने कारवाही नहीं चाहने के लिखित बयान देने पर पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया गया है। लेकिन उक्त स्कार्पियो कार को चाकसू पुलिस ने किया 207 में जन्त किया है। वही थाना प्रभारी कैलाश दान ने बताया कि स्कार्पियो कार पर ब्लैक फिरोम चढ़ी होने ने एवं कागजात के आभाव में कार को जन्त की कार्यवाही की गई है।

## 2 शांतिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार व मोटरसाइकिल बरामद



संजीवनी टुडे

चाकसू। शिवदासपुरा थाना पुलिस ने वहां चोरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दो अलग अलग मामलों में दो शांतिर वाहन चोर गिरफ्तार कर उनसे मोटरसाइकिलें बरामद की। थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि परिवारी लखन ने 26 अगस्त को जी-1/41 अप्रैल पार्क रिको इंडस्ट्रियल एरिया जगतपुरा जयपुर में एक कम्पनी कोहिनुर एक्सपोर्ट के बाहर से शाम को मोटरसाइकिल नही मिली। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। उस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मुखवीर खास व नाकाबंदी / वाहन चैकिंग की गई। इस चैकिंग के दौरान मोटर साइकिल चोर को गिरफ्तार किया व उससे मोटर साइकिल बरामद की। पुलिस ने आत्माराम पुत्र हरिराम जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी गांव जेवांडिया थाना बरोनी जिला टोंक को गिरफ्तार किया। वही परिवारी सीताराम बैरवा ने 15 जुलाई को मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कारवाही। उसमें बताया कि प्रधान पैदाईज गार्डन विधाणी प्रोग्राम में गया था मेने अपनी गाडी को गार्डन के सामने पार्क करके अन्दर खाना खाने चला गया मे खाना खा कर वापस आया तो मोटरसाइकिल नही मिली। पुलिस ने टीम घटित कर कार्यवाही की। उसमें पुलिस टीम द्वारा मुखवीर खास व नाकाबंदी / वाहन चैकिंग की गई दौरान चैकिंग में मोटर साइकिल चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की। उसमें दिलराज मीणा पुत्र बत्ती लाल मीणा जाति मीणा उम्र 21 साल निवासी गांव पीपलडा पुलिस थाना बौली जिला सर्वाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया है।

## प्रदेश प्रभारी मदन मोहन राजौर ने बीजेपी की केंद्र एवं राज्य सरकार को जमकर घेरा

संजीवनी टुडे

मथुरा। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में राजस्थान से प्रदेश प्रभारी मदन मोहन राजौर के नेतृत्व में प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी मदन मोहन राजौर ने किसान सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की केंद्र एवं राज्यसरकर पर किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने कहा की मथुरा की बीजेपी सांसद को किसानों का क पता नही है हिमाचल प्रदेश मंडी से बीजेपी सांसद द्वारा किसानों के प्रति दिए निन्दनीय बयान को लेकर उनके ऊपर एनएसए लगाकर जेल भेजना चाहिए। कंगना के बयान पर भाजपा को कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है ऐसे जनप्रतिनिधि देश की संसद में पहुंच गए जिनको किसानों और जवानों के मुद्दों से कोई मतलब नही है। पार्टी बार बार



चुनावों में किसानों के कर्जमाफ़ी के वादे को लेकर सरकार में आती है लेकिन फिर किसानों की जगह उद्योगपतियों के कर्जों को माफ करती है। सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बने। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दुबारा लागू किया जाए। संविधान की 5 वी सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। नकली बीज, कीटनाशक

दवाईयां एवं खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष रोहित शर्मा एवं समस्त राजस्थान टीम द्वारा जिला कलेक्टर मथुरा को राष्ट्रपति महोदया के नाम 8 सूत्री किसानों का मांग पत्र सौंपा प्रदेश प्रभारी का भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा 51 किलो की माला एवं पुष्प वर्षा से स्वागत सम्मान किया गया।

## प्रदेश में सरकार व प्रशासन ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है: सिंह

संजीवनी टुडे

अलवर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलवर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सरकार और प्रशासन ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रख दी है, सिंह बोले राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों के खर्च का बोझ उठा रही औद्योगिक नगरी भिवाड़ी आज बारूद के ढेर पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से सटा यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए सिर दर्द बन गया है। उन्होंने कहा कि यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि गहलोट सरकार की राज में यहां अलग से पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर की नियुक्ति की गई लेकिन सरकार सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर पा रही जिसकी वजह से क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जितेंद्र सिंह भिवाड़ी में जेलर्स गोलीकांड मामले को लेकर मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचकर व्यापारियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां के स्थानीय विधायक और बयानवीर नेता चुनाव के समय बड़े बयान देते हैं कि यहां साइकिल तक चोरी नहीं हो सकती लेकिन यहां



सरेआम मर्डर कर आरोपी आसानी से फरार हो जाता है आखिर कहा है इनकी बुलडोजर वाली सरकार। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी राजस्थान सरकार के सीनियर कैबिनेट मंत्री यहां आने से गुरेज कर रहे है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा में प्रदेश की कानून व्यवस्था और इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार को एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए और

साथ ही इस घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक बलजीत यादव, संदीप यादव, इमरान मंत्री यहां आने से गुरेज कर रहे है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा में प्रदेश की कानून व्यवस्था और इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार को एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए और

## जयपुर पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुथी

संजीवनी टुडे

जयपुर। राजधानी पुलिस ने ब्रह्मपुरी इलाके से युवक के अपहरण की वारदात का खुलासा आज कर दिया। पुलिस ने अपहृत युवक अनुम को सकुशल मुक्त करा अपहरण की वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी विरेंद्र सिंह, विनोद, अमित कुमार, जितेंद्र भंडारी और जमुना सरकार है। लगभग एक सप्ताह पुराने मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि बीती 18 अगस्त को अनुज अपने साथी के साथ नाहरगढ़ पहाड़ी पर घूमने गया था। इस दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों ने अनुज और उसके साथी को देखा। युवकों ने अनुज को अच्छे कपड़े पहने देखकर संपन्न परिवार से समझा और उसके मुंह पर टेप लगाकर हाथ – पांव बांधकर अपने साथ गाड़ी में ले गए। वहीं उसके साथी सोनी के साथ मारपीट पर रास्ते में पटक कर चले गए। अनुज के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने मामला दर्ज कराया। पुलिस मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने सोनी से सूचना मिलने पर पड़ोसी पुलिस टीम ने सोनी से पूछताछ कर पहाड़ी पर ड्रोन से सर्च किया। पुलिस ने किसी विवाद के चलते अपहरण की आशंका जाहिर। पुलिस की कई टीम ऑपरेशन



में जुटी रही। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने अनुज के परिवार से संपर्क कर 20 लाख रूपए की फिरोती मांगी। परिवार ने खुद के पास इतने पैसे होने से इंकार किया और पैसे जुटाने के लिए वक्त मांगा। इस दौरान पुलिस फोन नंबर को ट्रेस कर अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी रही। लेकिन अपहरणकर्ता पुलिस को छकाने के लिए सूचना मिलने पर पड़ोसी पुलिस टीम ने सोनी से लगातार जगह बदलते रहे। अंत में उन्होंने पैसे लेकर कालका – शिमला एक्सप्रेस ट्रेन के आखिरी डिब्बे में बैठने को कहा। पुलिस टीमों ने योजना के तहत ट्रेन के रूट पर टीमों को तैनात

रखा और जैसे ही अपहरणकर्ताओं ने धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास पैसों का बैग फेंकने को कहा वहां खड़े युवक को दबोच लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक के बाद एक अन्य आरोपियों को भी दबोच लिया। पुलिस की मानें तो वारदात का मास्टरमाइंड सांफ्टवेयर इंजीनियर विरेंद्र सिंह निकला। जिसने जल्द पैसा कमाने के लिए साधियों के साथ मिलकर अपहरण कर फिरोती की साजिश रची। फिलहाल पुलिस एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

## रामपुरा गांव में बने बाढ़ के हालात, पानी की निकासी की मांग को लेकर रिग रोड पर आमजन ने लगाया 2 घंटे तक जाम

संजीवनी टुडे

### चार किलोमीटर दूर तक वाहनों की लगी कतारें

चाकसू। यहां मंगलवार के रामपुरा वास गानेर गांव के ग्रामीणों ने गांव में चारों तरफ भरे पानी की निकासी की मांग को लेकर यहां शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में रिग रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि गांव में बीते करीब 20 दिनों से जलभराव होने से बाढ़ जैसे हालात बनी हुई है और गांव की आबादी के बीच करीब 2 फीट तक पानी भरने से लोगों के घरों में तक पानी भर गया है। और जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे है वही बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। कई निचले इलाकों में बने मकानों में पानी भरने से लोगों के घरों में भोजन तक नहीं बन रहा था। गांव में जलभराव की समस्या व पानी की निकासी को लेकर स्थानीय पंचायत प्रशासन से लेकर एसडीएम,



विधायक तक को अवगत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया और रिग रोड पर जाम लगाकर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर जमकर नारे लगाकर गांव में भरे पानी की शीघ्र निकासी की मांग की गई और वही विधायक रामावतार बैरवा को मौके पर बुलाने के लिए लोगों ने फोन भी किए लेकिन विधायक ग्रामीणों के बीच नहीं पहुंचे जिसके चलते विधायक के प्रति ग्रामीणों में गहरा आक्रोश हो गया और विधायक के मुर्दाबाद के नारे भी लगाये और वही रिग रोड पर जाम के कारण

रिग रोड पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई थी और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे चाकसू एसपी सुरेंद्र सिंह द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से समझाई की गई और तभी समस्या के समाधान के लिए जेडीसी को गांव में बुलाने के आश्वासन के बाद ग्रामीण जाम हटाने के लिए सहमत हुए इसके बाद पुलिस ने जाम को हटाकर यातायात सुचारूप से चालू किया गया था और ग्रामीणों को समझाई करके रिग रोड पर लगे जाम को हटाकर यातायात को सुचारू कर दिया गया था और वही गांव में जलभराव की समस्या को लेकर जेडीसी को अवगत करवाया गया है।

## खबरें फटाफट

## राजकीय महाविद्यालय करौली में राष्ट्रीय खेल सप्ताह का हुआ आगाज

संजीवनी टुडे

करौली। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश अनुसार राष्ट्रीय खेल सप्ताह का आयोजन महाविद्यालय करौली में किया जाएगा खेल प्रभारी दिनेश चंद मीना (राजकीय महाविद्यालय करौली) ने बताया की महाविद्यालय में दिनांक 26 अगस्त 2024 से 31 अगस्त तक 2024 तक राष्ट्रीय खेल सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न खेलों का आयोजन स्थानीय महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहा है, ,, आज खेल की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपने कौशल का परिचय दिया तथा अपने खेल से सभी को प्रभावित किया।

## जाशमा क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भजन कीर्तन एवं मटकी फोड़ का कार्यक्रम हुआ

संजीवनी टुडे

जाशमा। अनोपपुरा, कानाखेड़ा, माली खेड़ा, सूरजपुर, सेजगरिया आदि गांवों में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया चारभुजा मंदिर, गोलियों का मोहल्ला का मंदिर, ब्रह्मपुरी, सुडियों का मोहल्ला, बाजडोलिया का मोहल्ला, धोलिया का मोहल्ला, करशिया का मंदिर आदि मंदिरों पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया सभी मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन हुआ एवं चारभुजा मंदिर जाशमा के सामने मटकी फोड़ नवयुवकों द्वारा मनाया गया, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सभी श्रद्धालु पूरे दिन पर व्रत रखा रात्रि 12:00 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ आरती हुई प्रसाद केला, पंजीरी का वितरण किया गया।

## कागदर बांध छलका



कागदर बांध छलका

सराडा। उदयपुर जिले के ऋषभदेव क्षेत्र में स्थित छलक का सबसे बड़ा सिंचाई बांध कागदर बांध क्षेत्र कला गया। जिससे किसानों में खुशी की लहर छा गई। वही सबसे बड़ी सोम नदी का प्रवाह होता है सोम नदी भी उफान पर है। जिले में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है।

## शराब परिवहन करते 3 आरोपी पकड़े: तीनों नशे में थे, कार में रखी मिली शराब, फतहसागर झील किनारे की घटना

संजीवनी टुडे

उदयपुर। हाथीपोल थाना पुलिस ने कार में अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन कर ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी विशाल राव पिता गिरीश, योगेश चौहान पिता किशानालाल खटीक और धर्मेन्द्र पिता अंबालाल पहाडिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस को डीएसटी टीम के हैड कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह के जरिए फोन पर सूचना मिली थी कि फतहसागर झील किनारे मोती मगरी के पास एक कार में तीन युवक शराब पीकर घूम रहे हैं। वे आने-जाने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस जाब्ता तुरंत मौके पर खाना हुआ। तीनों आरोपियों को डिटैन किया। तीनों के घुब से शराब की बत्तू आ रही थी। हैड कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि ये तीनों युवक नशे में यातायात बाधित कर रहे थे और ट्रैफिक पुलिस व डीएसटी टीम से शराब के नशे में उलझ रहे थे। आरोपियों की कार को चेक किया तो उसमें एक अंग्रेजी शराब की खुली बोतल निकली। फिर कार की डिग्गी को खोला गया तो उसमें दो कर्टन शराब की बोतलें रखी मिली। शराब को लेकर उनके पास कोई वैध कागज नहीं थे। ऐसे में शराब परिवहन करने के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया। आगे पूछताछ करते हुए मामले की जांच जारी है।

## रेस्टोरेंट के बाहर से बाइक चुराने वाला गिरफ्तार: सीसीटीवी से पहचान के बाद दबोचा, दो मामले पहले भी दर्ज

संजीवनी टुडे

उदयपुर। सबीना थाना पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान की। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आरोपी बिलिया चौराहा पर खड़ा हुआ है। इसके बाद मौके पर जाकर दबोचा। थानाधिकारी अनजयसिंह राव ने बताया- आरोपी झमकलाल (32) पुत्र बालुराम डांगी निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग में खड़ी बाइक को चुरा ले जाता था। इसके खिलाफ पहले भी अरनोद थाने में नकबजनी के 2 मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी ने बताया- प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी डूंगरपुर ने थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया- वह 9 जून 2024 को तीतरडी स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। उसने रेस्टोरेंट के बाहर अपनी बाइक पार्क की थी। खाना खाकर बाहर आया तो देखा बाइक नहीं थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

## उदयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी की कार पर फेंकी स्याही: यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, बोले- जहां जाएंगे, वहां विरोध करेंगे

संजीवनी टुडे

उदयपुर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की कार पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी। काले झंडे दिखाए। राधा मोहन मंगलवार रात करीब 8 बजे महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के बाहर राधा मोहन की गाड़ी को रोक लिया। उनकी कार के सामने बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा है- जब तक राधा मोहन कांग्रेस के नेताओं को लेकर दिए गए बयानों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। तब तक वे जहां-जहां जाएंगे, हम उनका विरोध करेंगे। दरअसल, सलूंवर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले

उपचुनाव को लेकर बुधवार को संगठनात्मक बैठक है। इसके लिए राधा मोहन उदयपुर पहुंचे थे। सलूंवर के बाद गुरुवार को राधा मोहन बांसवाड़ा की चौगसी सीट पर उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। जयपुर में बीजेपी ऑफिस के बाहर स्याही फेंकी बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयानों के विरोध में यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार सुबह यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में राधा मोहन का पुतला फूंककर विरोध जताया। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय के बाहर पुतला फूंका गया। इसके बाद बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। यहां राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। शाम करीब 4 बजे बीजेपी मुख्यालय के बाहर लोग उनके पोस्टर पर स्याही फेंकी। यूथ कांग्रेस के



कार्यकर्ताओं के कार्यालय पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता भी हाथों में लाठी लेकर बाहर आ गए। जिन्हें देखकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग निकले। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का

कहना है कि बीजेपी प्रभारी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अर्नाल बयानबाजी कर रहे हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री बोले- डोटासरा के गुणों ने

## फार्म पौंड पर नहाने गए दो बच्चों की मौत: पशु चराकर लौट रही महिला ने बाँड़ी देखी तो हल्ला मचाया

संजीवनी टुडे

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के मंगरोप थाना इलाके के गांव कल्याणपुर में सोमवार शाम 6.30 बजे दो बच्चों के शव नाड़ी (फार्म पौंड) में मिले। बच्चे चित्तौड़गढ़ से कल्याणपुर अपने-अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में आए थे। बच्ची सोनू (8) और बच्चे हार्दिक (8) का कल्याणपुर में निहाल है। दोनों बच्चों की मौत की खबर सुनकर शादी समारोह में मातम छा गया। परिवारजन बिना पोस्टमार्टम करवाए दोनों बच्चों के शव लेकर अपने गांव चले गए। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बच्चे कल्याणपुर गांव के बाहर कल्लाजी बावजी इलाके में एक फार्म पौंड पर नहाने चले गए थे। इसके बाद उनके शव मिले।

जानकारी के अनुसार कल्याणपुर गांव में रेबारी समाज में एक शादी समारोह था। इसमें शामिल होने चित्तौड़गढ़ जिले के सावा और संग्रामगढ़ से कुछ लोग आए थे। इनके साथ आए दो बच्चे गांव के बाहर कल्लाजी बावजी के पास स्थित नाड़ी में नहाने चले गए। नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए जहां



डूबने से उनकी मौत हो गई। शाम को पशु चराकर घर लौट रही महिला ने नाड़ी के किनारे पर बच्चों के कपड़े देखे और दूसरे किनारे पर बच्चों की बाँड़ी देखी। महिला ने हल्ला मचाया तो बच्चों की तलाश कर रहे परिजन एवं ग्रामीण वहां पहुंचे और दोनों को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गांव में लोग बारात ले जाने की तैयारियां कर रहे थे। अचानक हुई इस घटना से शादी

का माहौल मातम में बदल गया। सूचना मिलने पर मंगरोप थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। मंगरोप थाना प्रभारी विवेक हरसाना ने बताया की नाड़ी में डूबने से हार्दिक रेबारी (8) व सोनू रेबारी (8) की मौत हुई है। दोनों बालक अपने परिजनों के साथ गांव में शादी समारोह में आए थे। दोनों का यहां निहाल बताया जा रहा है। दोनों परिवारों में ये बच्चे इकलौती संतान थे।

## भामाशाह सम्मान समारोह की तैयारीयां जारी, आज से दिए जाएंगे निमंत्रण पत्र

संजीवनी टुडे

## मीडिया कवरेज के लिए उपनिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय को दिया पत्र

## मुख्य अतिथि को गाई ऑफ ऑनर देने के लिए एनसीसी कैडेट्स व स्काउट्स ने शुरू किया अभ्यास

उदयपुर। प्रदेश में पहली बार राजधानी से बाहर उदयपुर में होने जा रहे 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि भामाशाह सम्मान समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने के तहत रविवार एवं जन्माष्टमी के अवकाश के दिन भी विभिन्न समितियों ने अपना कार्य किया। बुधवार से निमंत्रण पत्र दिए जाएंगे। जैन ने बताया कि भामाशाहों एवं प्रेरकों को उनके आवास से कार्यक्रम स्थल तक लाने ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था की गई है साथ ही अतिथियों एवं भामाशाहों व प्रेरकों के आवास के लिए आरटीडीसी होटल कजरी, सुखांडिया विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस, होटल भगवत, होटल देवदर्शन अतिथि गृह में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक की बुकिंग कर ली गई है। निमंत्रण पत्र वितरण समिति के प्रभारी एडीपीसी समग्र शिक्षा वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा अतिथियों को निमंत्रण पत्र वितरण का कार्य बुधवार से शुरू किया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भूपालपुरा में

संयुक्त निदेशक जैन द्वारा स्वागत गीत, ईश वंदना एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों का अवलोकन भी किया गया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र टांक ने बताया कि भामाशाह सम्मान समारोह की तैयारियों के तहत मुख्य अतिथि को गाई ऑफ ऑनर देने के लिए एनसीसी प्रभारी डॉ भारती शर्मा के निदेशन में एनसीसी कैडेट्स व स्काउट्स दल ने अभ्यास शुरू कर दिया है। प्रभारी डॉ भारती शर्मा के अनुसार एनसीसी के 50 कैडेट्स, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के 25 तथा भारत स्काउट एंड गाइड के 25 वॉलंटियर्स समारोह में अपनी सेवाएं देंगे। शर्मा ने बताया कि एनसीसी

कैडेट्स को पायलटिंग करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को स्वागत द्वार से मंच तक ससम्मान ले जाने का अभ्यास एवं मंच पर भामाशाहों को प्रतीक चिन्ह वितरण करने में, भामाशाहों एवं अतिथियों को अपनी सीट तक से सम्मान पहुंचाने सहित विभिन्न सहयोगात्मक गतिविधियों का अभ्यास करवाया गया। मुद्रण समिति द्वारा स्मारिका का कार्य किया जा चुका है जिसे प्रकाशन से पूर्व अनुमोदन हेतु बीकानेर निदेशक कार्यालय को भेजा गया है। कार्यक्रम व्यवस्था समिति, पुरस्कार वितरण समिति एवं स्वागत समिति द्वारा समारोह स्थल पर अपनी अपनी तैयारीयां की गईं। प्रचार प्रसार समिति के सदस्य व निजी सचिव संयुक्त निदेशक मांगीलाल मेनारिया ने बताया कि कार्यक्रम के पूर्व एवं कार्यक्रम के दिन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संपूर्ण कवरेज करने के लिए संयुक्त निदेशक व उपनिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय उदयपुर को संयुक्त निदेशक कार्यालय की ओर से विधिवत पत्र भेजे गये हैं।

## श्रीनाथ जी मंदिर में मुखिया बने नंद बाबा: नंदोत्सव पर केसर के दूध-दही व छाछ से खेली होली, गूंजे जयकारे

संजीवनी टुडे

राजसमंद। कल्लभ सम्प्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में हर्षोल्लास के साथ नन्दोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में परंपरागुनार नंद महोत्सव के दर्शन मंगलवार को सुबह साढ़े 7 बजे खुले। करीब डेढ़ घंटे तक यह दर्शन खुले रहे। इस अवसर पर मंदिर में केसर के दूध, दही व छाछ से मंदिर में छिड़काव कर होली खेली गई। इस दौरान श्रद्धालु इस अलौकिक महोत्सव में रम गए और पूरे मंदिर परिसर को लालो आये र लालो आये र, से गुंजायमान किया। श्रद्धालुओं ने नंद के घर आनंद भयो जय कहनेया लाल की के खूब जयकारे लगाए। नंद महोत्सव के तहत मंदिर के तिलकात पुत्र विशाल बाबा ने श्रीनवनीत प्रियाजी एवं श्रीजी प्रभु के छठी की पूजा की। इसके बाद श्रीजी प्रभु के गौद के ठाकुर श्रीनवनीत प्रियाजी को श्रीजी प्रभु के सम्मुख स्वर्ण पालने में बिराज कर नंद बाबा एवं यशोदा के रूप में बने श्रीजी एवं लाडले लाल प्रभु के मुखिया द्वारा प्रभु गौर एवं पालना शुलाया गया। ग्वाल एवं गोपी बने मंदिर सेवकों ने नृत्य मान किया। इस अवसर पर संपूर्ण हवेली एवं नगर में दूध दही एवं केसर से युक्त रस का छिड़काव कर सभी वैष्णव जन को सरोवर किया और बड़े धूमधाम से श्रीकृष्ण जन्मोत्सव एवं नंद महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर तिलकापुत्र पुत्र विशाल बाबा ने संपूर्ण



पुष्टि सृष्टि एवं वैष्णव जन को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दी। केसर युक्त दूध, दही का किया छिड़काव नंद महोत्सव के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर श्रीजी बाबा के दर्शन का लाभ लिया। इस दौरान मंदिर में दर्शन के बाद रतन चौक में श्रद्धालु पहुंचे तो उन पर दूध, दही का छिड़काव किया गया तो वे अपार श्रद्धा के साथ लालो आये र का पुणगान करते नाचते-गाते बहान निकले। इस दौरान महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं से मंदिर सराबोर रहा। कई श्रद्धालु तो धवल आभा के तो कई पीत वस्त्र धोती कुर्ता आदि पहनकर दर्शन करने पहुंचे एवं दर्शन के बाद जब मंदिर से बाहर

आए तो उनके ये वस्त्र बाद जब मंदिर से बाहर आए तो उनके ये वस्त्र केसर युक्त दूध दही से सराबोर हो गए। नंद महोत्सव के भाव से निज मंदिर के मणि कोठे में श्रीनाथजी के बड़े मुखिया इन्द्रवदन गिरनारा नंदबाबा बने, जबकि यशोदाजी का रूप नवनीत प्रियाजी यानि लाडले लालनजी मंदिर के मुखिया ने धरते हुए विशाल बाबा एवं अन्य सखियों का रूप धरने वाले भितरिया आदि ने नृत्य किया। नंद महोत्सव के दिन ही यह भाव रहता है कि श्रीनाथजी के बड़े मुखिया इन्द्रवदन गिरनारा को नंदबाबा का प्रतिरूप मानकर उनको उसी भाव से सम्मान दिया जाता है।

## एनिकट में डूबे तीनों बच्चों के शव बाहर निकाले: खारी नदी पर बने एनिकट की रपट पर तेज बहाव में बहे थे 3 भाई-बहन

संजीवनी टुडे

राजसमंद। देवगढ़ थाना इलाके में सोमवार को एनिकट में डूबे तीनों बच्चों के शवों को मंगलवार को रेस्क्यू टीम ने पानी से बाहर निकाल दिया। लसानी गांव के पास खारी नदी पर बने दाता का देव एनिकट की रपट पर तेज बहाव को पार करते हुए 3 चचेरे भाई-बहन बह गए थे। सके बाट नीचों बच्चों की आने रनर पर करते हुए 3 चचेरे भाई-बहन बह गए थे। इसके बाद तीनों बच्चों की ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी में तलाश की थी, लेकिन बच्चे नहीं मिले। उसके बाद सोमवार देर शाम राजसमंद से डूबकर व सिविल डिफेंस की टीम में घटना स्थल पर पहुंची। लेकिन सोमवार को रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिली। मंगलवार को फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया, जिसके बाद तीनों बच्चों के शव दोपहर तक निकाल लिए गए। सुबह 11.20 पर मिला पहला शव मंगलवार को सुबह टीनों ने फिर से शवों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। इसके बाद सुबह 11.20 के करीब पहला शव मिला। इसके आधे घंटे बाद



दूसरा शव मिला और तीसरा शव 12.35 बजे मिला। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। जैसे ही शव पानी से बाहर निकले परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। भीम विधायक हरिसिंह रावत भी घटना स्थल पर पहुंचे और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। देवगढ़ अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम इस हादसे में लसानी निवासी राजू लाल (14) पुत्र मोहन वागरिया, चचेरी बहन रेखा (13) पुत्री भवर लाल वागरिया, इनकी भुआ की लड़की रेखा

पुत्री सोहन लाल निवासी सोपरी दौलपुरा की मौत हो गई। तीनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकालने के बाद देवगढ़ अस्पताल की मॉर्च्युरी में पहुंचाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस अनुसार तीनों बच्चे भाई बहन सोमवार दोपहर के समय एनिकट के दूसरे छोर पर नींबू तोड़ने के लिए गए थे। इस दौरान तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे एनिकट की रपट पर पानी का बहाव तेज हो गया था और 1 फीट से ज्यादा

चादर चलने लगी। इस दौरान एनिकट के दूसरे छोर पर मछली पकड़ रहे युवक ने तीनों को एनिकट पर आने को मना किया, लेकिन पानी की आवाज के कारण वो सुन नहीं पाए। और एक-एक करके तीनों बच्चे एनिकट की रपट से बह गए। इसके बाद मछली पकड़ने वाले युवक ने बच्चों के पानी में गिरने की सूचना लोगों को दी। जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। घटना स्थल पर देवगढ़ थाना प्रभारी अनिल कुमार, देवगढ़ उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, लसानी ग्राम पंचायत सरपंच आर्यम मेवाड़ा, एसडीआरएफ टीम के सदस्य सिविल डिफेंस टीम के 8 सदस्य जिसमें करण सिंह गोताखोर, अविनाश सनादय, विजय कुमार सनादय, गोवर्धन वैष्णव, चन्द्रेश व्यास, प्रयाग सिंह, हरन मोहम्मद, तैराक विक्रम सिंह, देवगढ़ पूर्व प्रधान अमर सिंह चुंडावत, अजीत सिंह प्रधान प्रतिनिधि, कुलदीप सिंह ताल, खीम सिंह ग्राम विकास अधिकारी, रघु छोपा पटवारी, आरआई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे।

## आसींद में खदान में डूबा युवक: दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, गहने पानी में चला गया

संजीवनी टुडे

आसींद। आसींद के पास दौलतगढ़ चौकी क्षेत्र में पापड़िया में खदान में नहाते समय एक युवक डूब गया। झालरिया पंचायत के पापड़िया गांव खदान में नहाते समय दिनेश (25) पानी डूब गया। घटना की सूचना पर थाना प्रसारी हंसपाल सिंह सहित एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जहां गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। इसके दो घंटे बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि दिनेश के साथ गए दो दोस्तों ने ग्रामीण और पुलिस को सूचना दी थी। सरपंच जगदीश कुमावत ने बताया- 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 2 बजे के लगभग पापड़िया और दौलतगढ़ के बीच बंद पड़ी माईंस के खड्डे में पानी भरा था। जिसमें तीन दोस्त नहा रहे थे। इस दौरान दिन दिनेश नहाते समय खदान में गिर गया। आसींद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि माईंस के चारों तरफ तारबंदी नहीं होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं।



शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मंगलवार दोपहर 2 बजे के लगभग पापड़िया और दौलतगढ़ के बीच बंद पड़ी माईंस के खड्डे में पानी भरा था। जिसमें तीन दोस्त नहा रहे थे। इस दौरान दिन दिनेश नहाते समय खदान में गिर गया। आसींद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि माईंस के चारों तरफ तारबंदी नहीं होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं।



# मौसम बदला बुखार से जरा बचके

मौसम बदल रहा है कभी ठंडा कभी गर्मी के एहसास के चलते हम बीमार पड़ रहे हैं इस मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी ला रहे हैं, जिनमें बुखार बड़ा कॉमन है। डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं।

## तया है बुखार

जब हमारे शरीर पर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है तो शरीर अपने आप ही उसे मारने की कोशिश करता है। इसी मकसद से शरीर जब अपना टेम्प्रेच बढ़ाता है तो उसे बुखार कहा जाता है। अगर शरीर का तापमान सुबह के समय 99 डिग्री फारनहाइट से ज्यादा और शाम के वक्त 99.9 डिग्री फारनहाइट से ज्यादा है, तो बुखार माना जाता है। अब 98.4 नॉर्मल टेम्प्रेच का कॉन्सेप्ट बदल चुका है। मलेरिया और डेंगू में बुखार 101 से लेकर 103 डिग्री फारनहाइट तक पहुंच जाता है, जबकि वायरल में बुखार की रेंज को बता पाना काफी मुश्किल होता है।


## खुद तया करें

बुखार अगर 102 डिग्री तक है और कोई और खतरनाक लक्षण नहीं हैं तो मरीज की देखभाल घर पर ही कर सकते हैं। इसमें तीन चार दिन तक इंतजार कर सकते हैं। मरीज के शरीर पर सामान्य पानी की पट्टियां रखें। पट्टियां तब तक रखें, जब तक शरीर का तापमान कम न हो जाए। अगर इससे ज्यादा तापमान है तो फौरेन डॉक्टर को दिखाएं। मरीज को एसी में रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पंखे में रखें। कई लोग बुखार होने पर चादर ओढ़कर लेट जाते हैं और सोचते हैं कि पसीना आने से बुखार कम हो जाएगा, लेकिन इस तरह चादर ओढ़कर लेटना सही नहीं है। साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखें। मरीज को वायरल है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें इस्तेमाल न करें। मरीज को पूरा आराम करने दें, खासकर तेज बुखार में। आराम भी बुखार में इलाज का काम करता है। मरीज छींकने से पहले नाक और मुंह पर रुमाल रखें। इससे वायरल होने पर दूसरों में फैलेंगा नहीं।

## बस्तें ऐहतियात

ठंडा पानी न पीएं, मैदा और बासी खाना न खाएं। खाने में हल्दी, अजवाइन, अदरक, हॉंग का ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल करें। इस मौसम में पत्ते वाली सब्जियां, अरबी, फूलगोभी न खाएं। हल्का खाना खाएं, जो आसानी से पच सके। पूरी नींद लें। मिर्च मसाले और तला हुआ खाना न खाएं, भूख से कम खाएं, पेट भर न खाएं। खूब पानी पीएं। छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी आदि खूब पिएं। नाक के अंदर की तरफ सरसों का तेल लगाकर रखें। इससे तेल की चिकनाहट बाहर से बैक्टीरिया को नाक के अंदर जाने से रोकती है। खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सुबह आधा चम्मच हल्दी पानी के साथ या रात को आधा चम्मच हल्दी एक गिलास दूध के साथ लें। लेकिन अगर आपको नजला, जुकाम या कफ आदि है तो दूध न लें। तब आप हल्दी को पानी के साथ ले सकते हैं। 8-10 तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर लें या तुलसी के 10 पत्तों को पौने गिलास पानी में उबालें, जब वह आधा रह जाए तब उस पानी को पीएं।

वया आपको अचानक सिर के किसी एक हिस्से में वेहद दर्द होता है, जो झकझोर के रख देता है? तया इस कारण रोजमर्रा के कामों को करने में परेशानी होती है? ऐसा लगता है, मानो जब तक आराम न आ जाए, तब तक अंधेरे कमरे में लेटे रहें? दर्द के साथ चक्कर या उलटी की शिकायत भी होती है? यदि आपका जवाब हां है तो यह दर्द माइग्रेन हो सकता है। खुद से ही दर्द निवारक दवाओं द्वारा इसे रोकने से बेहतर है कि आप तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें। पिछले कुछ समय में किशोरों व युवाओं में इसके मामले तेजी से बढ़े हैं।



# FEVERS



## डेंगू कैसे और कब

डेंगू मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में, खासकर सुबह शरीर के निचले हिस्सों पैरों आदि पर काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है। काटे जाने के 3-5 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने की मियाद 3 से 10 दिनों की भी हो सकती है।

## डेंगू के 3 रूप

- क्लासिकल (साधारण) डेंगू बुखार
- डेंगू हैमरेजिक बुखार
- डेंगू शॉक सिंड्रोम

इन तीनों में से दूसरे और तीसरे तरह का डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। साधारण डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और इससे जान का खतरा नहीं होता लेकिन अगर किसी को डीएचएफ या डीएसएस है और उसका फौरन इलाज शुरू नहीं किया जाता तो जान जा सकती है। इसलिए यह पहचानना सबसे जरूरी है कि बुखार साधारण डेंगू है, डीएचएफ है या डीएसएस है।

## बुखार कब जानलेवा

सभी बुखार जानलेवा या बहुत खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर डेंगू में हैमरेजिक बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाए, मलेरिया दिमाग को चढ़ जाए, टायफाइड का सही इलाज न हो, प्रेगनेंसी में वायरल हेपेटाइटिस या मेनिंजाइटिस हो जाए तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है इसलिए बीमारी उन्हें जल्दी जकड़ लेती है। ऐसे में उनकी बीमारी को नजरअंदाज न करें। खुले में ज्यादा रहते हैं इसलिए इन्फेक्शन होने और मच्छरों से काटे जाने का खतरा उनमें ज्यादा होता है। बच्चों को घर से बाहर पूरे कपड़े और जूते पहनाकर भेजें। मच्छरों के मौसम में बच्चों को निकर व टी-शर्ट न पहनाएं। रात में मच्छर भगाने की त्रामें लगाएं। बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा हो, लगातार सोए जा रहा हो, बेचैन हो, उसे तेज बुखार हो, शरीर पर रेशेज हों, उलटी हो या इनमें से कोई भी लक्षण हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं।

## लक्षण तया-तया साधारण डेंगू बुखार

ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार। -सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द -आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, जो आंखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना और जी मिचलाना। गले में हल्का-सा दर्द होना। शरीर खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर, लाल-गुलाबी रंग के रेशेज। क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार करीब 5 से 7 दिन तक रहता है और मरीज ठीक हो जाता है। ज्यादातर मामलों में इसी किस्म का डेंगू बुखार होता है।

## डेंगू हैमरेजिक बुखार

नाक और मसूंहों से खून आना। शौच या उलटी में खून आना। स्किन पर गहरे नीले-काले रंग के छोटे या बड़े रेशेज पड़ जाना। साधारण डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ ये लक्षण भी दिखाई दें तो वह डीएचएफ हो सकता है। ब्लड टेस्ट से इसका पता लग सकता है।

## डेंगू शॉक सिंड्रोम

इस बुखार में डीएचएफ के लक्षणों के साथ-साथ 'शॉक' की अवस्था के भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे- मरीज बहुत बेचैन हो जाता है और तेज बुखार के बावजूद उसकी स्किन ठंडी महसूस होती है। मरीज धीरे-धीरे होश खोने लगता है। मरीज की नाड़ी कभी तेज और कभी धीरे चलने लगती है। उसका ब्लडप्रेशर एकदम लो हो जाता है।



## इलाज

अगर मरीज को साधारण डेंगू बुखार है तो उसका इलाज व देखभाल घर पर की जा सकती है। अगर बुखार 102 डिग्री फारनहाइट से ज्यादा है तो मरीज के शरीर पर पानी की पट्टियां रखें। सामान्य रूप से खाना देना जारी रखें। बुखार की हालत में शरीर को और ज्यादा खाने की जरूरत होती है। मरीज में DSS या DHF का एक भी लक्षण दिखाई दे तो उसे जल्दी-से-जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं। DSS और DHF बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिससे शरीर के जरूरी हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। डेंगू बुखार के हर मरीज को प्लेटलेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ डेंगू हैमरेजिक और डेंगू शॉक सिंड्रोम बुखार में ही जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं। अगर सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो DSS और DHF का पूरा इलाज मुमकिन है। इलाज कराने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को थोड़ी कमजोरी रहती है, जो 10 दिन में ठीक हो जाती है। पूरी तरह स्वस्थ होने में मरीज को 10 दिन लगते हैं।

## एलोपैथी में इलाज

इसकी दवाई लक्षण देखकर और इसकी डंडी मिलती है तो चार इंच प्लेटलेट्स का ब्लड टेस्ट की डंडी लें), दो काली कराने के बाद ही दी मिर्च, तुलसी के पांच पत्ते और आयुर्वेद: आयुर्वेद अदरक मिलाकर में इसकी कोई पेटेंट दवा नहीं है, लेकिन डेंगू न हो, इसके लिए यह नुस्खा अपना सकते हैं। एक कप पानी में एक चम्मच गिलोय का रस (अगर में डिनर से पहले लें।

## कौन-से टेस्ट

अगर तेज बुखार हो, जॉइंट्स में तेज दर्द हो या शरीर पर रेशेज हों तो पहले दिन ही डेंगू का टेस्ट कराएं। लक्षण नहीं हैं, पर तेज बुखार है तो भी एक-दो दिन बाद फिजिशन के पास जाएं। शक होने पर डॉक्टर डेंगू की जांच कराएंगे। डेंगू की जांच के लिए शुरूआत में एंटीजन ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में डेंगू शुरू में ज्यादा पॉजिटिव आता है, जबकि बाद में धीरे-धीरे पॉजिटिविटी कम होने लगती है। अगर तीन-चार दिनों के बाद टेस्ट कराते हैं तो एंटीबॉडी टेस्ट (डेंगू सिरॉलजी) कराना बेहतर है। डेंगू की जांच कराते हुए वाइट ब्लड सेल्स का टोटल काउंट और अलग-अलग काउंट करा लेना चाहिए। इस टेस्ट में प्लेटलेट्स की संख्या पता चल जाती है।

# ताकि चलती रहे कामकाजी जिंदगी



हर समय घर-दफ्तर की भागदौड़ और इससे तालमेल बैठाने की कोशिश करते आप...मानो पूरा जीवन ही मशीनी हो गया है। पर यह मशीन लंबे समय तक साथ देती रहे, इसके लिए जरूरी है नियमित व्यायाम। वैसे ही जैसे आप दूसरे सब काम करते हैं 15 मिनट का समय निकाल कर कौन से आसन जरूर करें। कामकाज लोगों के पास समय की बड़ी कमी होती है। व्यायाम न कर पाने के सी बहाने हमेशा तैयार रहते हैं। यूं भी सेहत के प्रति लापरवाह नजरिया हम भारतीयों में आसानी से देखने की मिलता है। सारा दिन कंप्यूटर, कुर्सी, टैबल, फोन तथा घर-ऑफिस के कामों में ही बीत जाता है। न चैन से भोजन करना, न चैन से सोना। यही कारण है कि अधिकांश युवा व कामकाजी वर्ग कम उम्र में ही उच्च व निम्न रक्तचाप, मधुमेह, मोटापे, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पाइन्डलाइटिस, उदर रोग, अपचन, वायु रोग, मानसिक तनाव, जोड़ों में दर्द तथा थकावट का शिकार हो रहा है। आधुनिक चिकित्सा के पास मनुष्य को संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन तथा पूर्ण कार्यक्षम बनाने की कोई दवा नहीं है। योग के निरंतर तथा नियमित अभ्यास से जरूर इसका समाधान संभव है। यहां कुछ आसन क्रियाएं दी जा रही हैं, जिनके लिए घर व ऑफिस में कुछ समय निकाल कर अपनी कामकाजी जिंदगी को दीर्घायु बना सकते हैं..

1. ऑफिस में कुर्सी पर बैठ कर करने वाली योगिक क्रियाएं  
2. घर/ ऑफिस में एकांत में की जाने वाली योगिक क्रियाएं  
ऑफिस में कुर्सी पर बैठ कर करने वाली योगिक क्रियाएं  
इन क्रियाओं को सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कहते हैं। इन्हें आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे-बैठे कभी भी आसानी से कर सकते हैं। ये क्रियाएं गर्दन, हाथ, पैर तथा रीढ़ के लिए अलग-अलग होती हैं। इनके अभ्यास की विधि इस प्रकार है..

गर्दन की क्रियाएं: कुर्सी पर रीढ़, गर्दन व सिर को सीधा रख कर बैठ जाएं। दो गहरी सांस लें और छोड़ें। चेहरे को पांच बार दाएं और बाएं कंधे की ओर ले जाएं। इसके बाद पांच बार आगे व पीछे की ओर सिर झुकाएं। अंत में सिर को पांच बार घड़ी की सुई की दिशा में तथा इतनी ही बार विपरीत दिशा में घुमाएं। सर्वाइकल स्पाइन्डलाइटिस की स्थिति में सिर को आगे की ओर झुकाना तथा घुमाकर घुमाना मना होता है।  
लाभ: ऐसा करते रहने से सर्वाइकल स्पाइन्डलाइटिस होने के खतरे से बच सकता है।  
हाथ की क्रियाएं: कुर्सी पर रीढ़, गर्दन व सिर को सीधा कर बैठें। दो गहरे सांस लें व छोड़ें। अब दाएं हाथ के कंधे को हल्का कड़ा करें, फिर ऊपरी बांह, निचली बांह, कलाई व हथेली को कड़ा करें। हाथ को 10 सेकेंड तक कड़ा रखें, फिर हथेली, कलाई, निचली व ऊपरी बांह तथा कंधे को क्रम से ढीला करें। यह क्रिया 5 बार करें। बाएं हाथ से दोहराएं। इससे शोल्डर फ्रीजिंग, कलाई व उंगलियों में दर्द की आशंका नहीं रहती। कंप्यूटर पर देर तक काम करने वालों के लिए यह अच्छी क्रिया है।  
योगिक श्वसन: इसका अभ्यास उठते, बैठते, चलते-फिरते तथा लेटे हुए कभी भी किया जा सकता है। कुर्सी पर रीढ़, गला व सिर को सीधा रख कर बैठ जाएं। अब एक गहरी सांस लेकर पहले श्वास पेट में तथा उसके बाद सीने में भरें। श्वास निकालते समय पहले सीने को खाली करें। फिर पेट खाली करें। इसे 25 से 30 बार दोहराएं।  
रीढ़ की क्रिया: कुर्सी पर रीढ़, गला व सिर को सीधा रख कर बैठें। दो गहरी सांस लें व छोड़ें। अब दोनों हाथ की हथेलियों को सिर के पीछे रख कर धड़ को आगे, पीछे, दाएं व बाएं मोड़ें। यह क्रिया 5 बार दोहराएं। यह क्रिया रीढ़ की प्रत्येक कलियां को सशक्त करती है।

## पैर के लिए व्यायाम

कुर्सी पर रीढ़, गला व सिर को सीधा रख बैठ जाएं। दो गहरी सांस लें व छोड़ें। इसके बाद दाएं पैर के क्रमशः नितंब, जांघ, पिंडली, एड़ी, पंजे तथा उंगलियों को हल्का, मध्यम तथा तीव्र कड़ा करें। इसके बाद उल्टी दिशा से उंगलियों से लेकर नितंब को धीरे-धीरे ढीला छोड़ दें। यह क्रिया 5 बार दोहराएं।

# माइग्रेन: कैसे पाएं चैन...

तेज रफ्तार जिंदगी व अस्वस्थ जीवनशैली के कारण आज सिरदर्द की समस्या आम हो गई है। लंबे समय तक चलने वाला सिरदर्द आगे चल कर

माइग्रेन का रूप धारण कर लेता है। माइग्रेन का दर्द कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। पहले माना जाता था कि माइग्रेन मस्तिष्क की रक्त

नलिकाओं के फैलने और सिकुड़ने के कारण होता है, लेकिन कई अनुसंधानों में यह बात सामने आई है कि माइग्रेन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी के

कारण होता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स का संचरण प्रभावित होता है, विशेष रूप से सेरोटोनिन हार्मोन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है।

## महिलाएं हैं आसन शिकार

वचन में सिरदर्द लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक होता है, लेकिन किशोरावस्था में पहुंचते ही लड़कियों में सिरदर्द की समस्या लड़कों के मुकाबले ज्यादा होती है। महिलाओं में माइग्रेन की समस्या पुरुषों के मुकाबले तीन गुना ज्यादा होती है। उम्र के साथ यह समस्या बढ़ती जाती है। महिलाओं में पीरियड्स, गर्भावस्था और मेनोपॉज के दौरान होने वाले हार्मोन परिवर्तनों का माइग्रेन से सीधा संबंध है। गर्भनिरोधक दवाओं का सेवन भी माइग्रेन के खतरे को बढ़ा देता है।

सर्विकोजेनिक हेडेक: सर्विकोजेनिक हेडेक क्रॉनिक हेडेक का सबसे सामान्यकारण है। इसकी उत्पत्ति सर्वाइकल स्पाइन से होती है। यह केवल एक ओर होता है। बहुत कम मामलों में ही देखा जाता है कि यह मस्तिष्क की मध्य रेखा को पार करता है। गर्दन का पॉश्चर या गति ठीक नहीं रखने से यह और गंभीर हो जाता है। कम्प्यूटर पर काम करने वाले लोगों में यह अक्सर देखा जाता है। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन अधिक ऊंची है, तब गर्दन को ऊंचा करके देखना पड़ता है, जिससे सिरदर्द हो जाता है। गंभीर सर्विकोजेनिक हेडेक में ऑपरेशन की आवश्यकता भी पड़ सकती है।

सर्विकल स्पाइन्डलोसिस: यह उम्र से संबंधित समस्या है, जो गर्दन के जोड़ों को प्रभावित करती है। सर्विकल स्पाइन्डलोसिस सर्विकल स्पाइन की उपस्थितियों और हड्डियों में टूट-फूट के कारण होता है। इसे नेक अर्थराइटिस भी कहते हैं। यह 90वें उन लोगों में होता है, जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक होती है। यह गर्दन में लगी किसी चोट या आनुवंशिक कारणों से हो सकता है। इसके कारण सिरदर्द भी होता है।

## माइग्रेन के प्रकार

माइग्रेन के दो प्रकार होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। जब माइग्रेन का दर्द आंरा यानी दृष्टि संबंधी गड़बड़ी के बाद शुरू होता है, तब इसे क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं। क्लासिकल माइग्रेन में आमतौर पर सिरदर्द के 10-15 मिनट पहले आंरा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब सिरदर्द बिना 'आंरा' और दूसरे लक्षणों के साथ शुरू होता है, तब इसे नॉन क्लासिकल या सामान्य माइग्रेन कहते हैं। सामान्य माइग्रेन बच्चों और किशोरों में अधिक होता है। माइग्रेन के जो कुल मामले देखे जाते हैं, उनमें से 70 से 85 प्रतिशत सामान्य माइग्रेन और 15 से 30 प्रतिशत क्लासिकल माइग्रेन वाले होते हैं। छोटे बच्चों में माइग्रेन के दौरें शाम को पड़ते हैं।

## माइग्रेन के ट्रिगर

वैसे माइग्रेन के वास्तविक कारणों का पता नहीं है, पर देखा जाता है कि माइग्रेन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे उत्तेजना और गहरा अवसाद या न्यूरोटिक डिसऑर्डर जैसे पक्षाघात और मिरगी भी माइग्रेन के खतरे को बढ़ा देते हैं।

## कुछ अन्य ट्रिगर भी निम्न हैं..

तनाव और नींद की कमी। हार्मोंस में बदलाव विशेषकर महिलाओं में। सामान्य खान-पान की शैली में बदलाव। शुरुआत का स्तर कम हो जाना। कैफीन और अल्कोहल का सेवन। मौसम में बदलाव। गर्भनिरोधक गोलिएयां और अस्थमा का उपचार। यात्रा करना। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, मांस, नूडल्स, बीयर, रेड वाइन आदि। शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य या एक्सरसाइज करना। पूरी नींद न लेना या रात में देर तक जागना या बहुत ज्यादा सोना। डीहाइड्रेशन।

## लक्षण

माइग्रेन के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलते रहते हैं, बच्चों में यह सिर के अगले भाग और दोनों तरफ के हिस्सों को प्रभावित करता है। किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में दर्द सिर के एक हिस्से को प्रभावित करता है। माइग्रेन के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं.. तेज सिरदर्द के साथ चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी होना या पेट दर्द। रोशनी और आवाजों के प्रति संवेदनशीलता। मस्तिष्क के एक भाग में धुक्-धुक् की आवाज के साथ तेज दर्द होना। ध्यान केंद्रित करने में समस्या होना। सोचने की क्षमता प्रभावित होना। कभी-कभी बोलते समय उपयुक्त शब्द की तलाश न कर पाना। त्वचा का पीला पड़ जाना। चक्कर आना। उल्टी होना या पेट दर्द।



# पैरालंपिक खेल : भारत को अपने सबसे बड़े दल से रिकॉर्ड पदकों की उम्मीद

एजेसी ▶▶ पेरिस

## एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पैरालंपिक टीम में

भारत ने पिछले साल हांगकॉंग एशियाई पैरा खेलों में 29 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 111 पदक जीते थे। इसके बाद मई में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने आधा दर्जन स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले कई खिलाड़ी पैरालंपिक टीम में शामिल हैं।

### सुमित, अविनि स्वर्ण बचाने उतरेंगे

इनमें विश्व रिकॉर्डधारी भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल (एफ64) और राष्ट्रफुल निशानेबाज अविनि लेखरा (10 मीटर एयर राष्ट्रफुल स्टीडिंग एमएच1) जैसे शीर्ष सितारे शामिल हैं। ये दोनों टोक्यो में जीते गए अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने के लिए उतरेंगे।



### एथलेटिक्स में 38 खिलाड़ियों से देश को उम्मीदें

भारत के लिए पैरा-एथलेटिक्स टीम ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार भी एथलेटिक्स में भाग ले रहे 38 खिलाड़ियों से देश को काफी उम्मीद है। पदक के अन्य प्रमुख दावेदारों में पैरा तीरंदाज शीतल देवी शामिल हैं, जो अपने पैरों से निशाना लगाती हैं। उनके अलावा होकाटो सेमा (शॉट पुट) और नारायण कोंगनापल्ले (रोवर) और कई अन्य खिलाड़ी पदक के दावेदार हैं।

### सुमित व भाग्यश्री होंगे भारत के ध्वजवाहक

एशियाई पैरा खेलों में एफ34 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले सुमित अंतिल और शॉट पुट भाग्यश्री जाधव पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार किसी स्टेडियम के बाहर आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे।

### भारत 12 खेलों में ले रहा भाग

भारत इस बार 12 खेलों में भाग ले रहा है, जबकि टोक्यो में 54 सदस्यीय टीम ने नौ खेलों में भाग लिया था। निशानेबाज मनीषा नरवाल और बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पिछले पैरालंपिक में जीते गए अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने के लिए उतरेंगे।

### तीरंदाजी में हरविंदर होंगे पदक के दावेदार

पैरा तीरंदाजी में शीतल और हरविंदर सिंह पदक के दावेदारों में से होंगे। हरविंदर ने टोक्यो में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकॉर्ड ऑपन में कांस्य पदक जीता था। टोक्यो में टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने वाली भाविनाबेन पटेल का लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना होगा। व्हीलचेयर पर बैठकर खेलने वाली यह खिलाड़ी महिला एकल एस4 और महिला युगल डी10 स्पर्धाओं में भाग लेगी।

### खबर संक्षेप



### मार्क वुड की जगह ओली इंग्लैंड टीम में

लंदन। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट के लिये चोटिल मार्क वुड की जगह तेज गेंदबाज ओली स्टोन को टीम में जगह दी है। यह जून 2021 के बाद स्टोन का पहला टेस्ट होगा। इंग्लैंड ने पिछले सप्ताह मैनचेस्टर में पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था। इंग्लैंड टीम : ओली पोप (कप्तान), बेन डकेट, डैन लॉरेस, जो रूट, हेरी ब्रूक, जैमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, ग्यूस एर्टकिंसन, मैथ्यू पोर्ट्स, ओली स्टोन, शोएब बशीर।

### गुकेश ने कारुआना से ड्रा खेला, फिरोजा ने बढ़त मजबूत की



सेंट लुई (अमेरिका)। भारत के ग्रैंडमास्टर और विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंक्रोसल कप में एक बार फिर अपनी बाजी ड्रा खेली तथा अमेरिका के शीर्ष वरीयता प्राप्त फैंबियानो कारुआना के साथ अंक बांटे जबकि फ्रांस के खिलाड़ी अलीरेजा फिरोजा ने सातवें दौर में पूरे अंक लेकर अपनी बढ़त मजबूत कर ली। इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे एक अन्य भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने लगातार सातवें बाजी ड्रा खेली। उन्होंने रूस के इयान नेपोमिनाचो के साथ अंक बांटे। अब जबकि दो राउंड का खेल बाकी है तब फिरोजा पांच अंक लेकर शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने सातवें दौर में चीन के विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराया। कारुआना उनसे एक अंक पीछे हैं।

### मंधाना डब्ल्यूबीबीएल के एडिलेड स्टाइकर्स के लिए खेलेंगी

एडिलेड। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) के आगामी सत्र में मौजूदा चैंपियन एडिलेड स्टाइकर्स की तरफ से खेलेंगी। यह भारतीय सलामी बल्लेबाज इससे पहले डब्ल्यूबीबीएल की तीन टीमों ब्रिस्बेन हीट, सिडनी थंडर और होबार्ट हरिकेस के लिए खेल चुकी हैं। वह लीग के सत्र से पहले विदेशी खिलाड़ियों से अनुबंध करने के नियम के तहत रविवार को होने वाले ड्राफ्ट से पहले स्टाइकर्स में शामिल हो गईं। मंधाना हालांकि लीग के शुरूआती मैचों में नहीं खेल पाएंगी क्योंकि भारत को अक्टूबर के अंत में तीन वनडे मैचों के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करनी है। डब्ल्यूबीबीएल 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। भारत को एक दिसंबर को होने वाले डब्ल्यूबीबीएल फाइनल के ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच भी खेलने हैं।

## खिताब के बचाव के लिए दोनों की शानदार शुरुआत

# जोकोविच और कोको गॉफ आसान जीत के साथ अमेरिकी ओपन के दूसरे दौर में

एजेसी ▶▶ न्यूयॉर्क

मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खिताब का बचाव करने के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। दूसरी वरीयता प्राप्त जोकोविच ने पहले दौर के मैच में मोल्दोवा के क्वालीफायर राडू अल्बोट को 6-2, 6-2, 6-4 से हराया। नोवाक ने अमेरिकी ओपन में 89वां मैच जीत कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। जोकोविच रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में हैं। जोकोविच का अगला मुकाबला सर्बिया के उनके हमवतन लास्लो जेरें से होगा जिन्होंने जान लेनार्ड स्ट्रफ पर 6-7 (7), 6-1, 6-7 (7), 6-4, 6-2 से जीत हासिल की।

### एक साल पहले तीसरे दौर में जेरे से दो सेट हार गए थे नोवाक

एक साल पहले जोकोविच अमेरिकी ओपन के तीसरे दौर में जेरे से पहले दो सेट हार गए थे लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी करके पांच सेट में यह मुकाबला जीता था। गॉफ ने सोमवार को यहां पहले दौर के मैच में करवरा वेवेवा को 6-2, 6-0 से पराजित किया।

### गॉफ खराब फॉर्म से जूझ रही

गॉफ हाल में खराब फॉर्म से जूझ रही थी लेकिन यहां उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक दबका बनाए रखा। उन्होंने मैच के बाद कहा, 'फिरले कुछ सप्ताह मुश्किल भरे थे। मैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध थी लेकिन मुझे अपने अलावा किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना है।'



### शेल्टन इस सत्र के बाद लेंगे संन्यास

अमेरिका के एक अन्य खिलाड़ी और पिछले साल सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 13वीं वरीयता प्राप्त डेन शेल्टन ने 2020 के चैंपियन डिमित्रीस थिएस को 6-4, 6-2, 6-2 से हराया। थिएस का यह अमेरिकी ओपन में आखिरी मैच था क्योंकि वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस सत्र के बाद वह संन्यास ले लेंगे।

### 2017 की चैंपियन स्टीफंस हुई बाहर

अमेरिकी ओपन में 2017 की चैंपियन स्लोएन स्टीफंस ने तारा ब्यूरल के खिलाफ शुरूआती भी गेम जीते लेकिन इसके बाद उनकी लय गड़बड़ा गई और उन्हें 0-6, 7-5, 7-5 से हार का सामना करना पड़ा।

### पेरिस ओलंपिक की स्वर्ण विजेता विनवेन अगले दौर में

महिला वर्ग में जिन अन्य वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों ने अगले दौर में जगह बनाई उनमें इस महीने की शुरुआत में पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली सातवीं वरीयता प्राप्त झेंग विनवेन, ओलंपिक की रजत पदक विजेता और यहां 24वीं वरीयता प्राप्त डोना वेंकिच, 12वीं वरीयता प्राप्त डारिया कसाटकना और 14वीं वरीयता प्राप्त मैडिसन कौज शामिल हैं। नौवीं वरीयता प्राप्त मारिया सककारी दाहिने कंधे में चोट के कारण एक सेट के बाद मैच से हट गईं।

### ज्वेरेव, रुबलेव, रूड और दिमित्रीव अगले दौर में

पुरुष वर्ग में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों में चौथी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव, छठी वरीयता प्राप्त एंड्री रुबलेव, आठवें वरीय कैम्पर रूड, नौवें वरीय और 2022 के उपविजेता ग्रिगोर दिमित्रीव तथा 12वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज शामिल हैं। पुरुष वर्ग में जिस वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा वह 15वें वरीय होल्जर रूथ थे, जिन्हें अमेरिका के ब्रैंडन नकाशिमा ने 6-2, 6-1, 6-4 से हराया।

### टेनिस

## नागल पहले दौर में बाहर



एजेसी ▶▶ मुंबई

भारत के शीर्ष खिलाड़ी सुमित नागल यहां शुरूआती दौर में नीदरलैंड के टालोन ग्रिक्सपुर से सीधे सेटों में हारकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल से बाहर हो गए।

नागल को अपनी पहली सर्विस में संघर्ष करना पड़ा और वह सोमवार की रात को खेले गए मैच में ग्रिक्सपुर से 1-6, 3-6, 6-7 (8) से हार गए। नागल ने दो घंटे और 20 मिनट तक चले मैच में दो बार अपने प्रतिद्वंद्वी को सर्विस तोड़ी जबकि नीदरलैंड के खिलाड़ी ने ब्रेक प्वाइंट के 11 मौकों में से छह को भुनाया।

### गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा

झुज्जर के रहने वाले 27 वर्षीय नागल को लय हासिल करने में कुछ समय लगा। उन्होंने शुरू में कई गलतियों की जिनका आखिर में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरे सेट में जब नागल 3-5 से पीछे थे तब हटकों बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन यह जीत के लिए पर्याप्त नहीं था। नागल अब पुरुष युगल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष युगल में भारत के रोहन बोपन्ना, सुनील शर्मा, एन श्रीराम बालाजी और नागल अलन-अलन जोड़ीदारों के साथ खेलेंगे।

### रुतुपर्णा-श्वेतपर्णा की जोड़ी कोरिया ओपन में हारी

सोल। रुतुपर्णा पांडा और श्वेतपर्णा पांडा की भारतीय महिला युगल जोड़ी मंगलवार को यहां कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में सीधे गेम में हार के साथ बाहर हो गईं। पांडा बहनों को सीहं पैई शेन और हुआ इग जू की चीनी ताइपे की जोड़ी के खिलाफ 37 मिनट चले मुकाबले में 18-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल में तीन भारतीय आकर्षी कश्यप, मालविका बंसोई और अश्विनी कलिहा चुनौती पेश कर रही हैं। आकर्षी को पहले दौर में डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से भिड़ना है जबकि मालविका और अश्विनी को बुधवार को कतार: डेनमार्क की होजमार्क जार्सफेरेट और थाईलैंड की पोर्णपावी चोचुवोंग के खिलाफ खेलना है।

### गोल्फ चैंपियनशिप

## जीव, रंधावा भारत की पहली लीजेंड्स टूर में हिस्सा लेंगे



एजेसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत के दिग्गज गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और ज्योति रंधावा होगे और इससे पहले 28 और 29 सहित 64 खिलाड़ी 30 अगस्त से ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स पर पहली एचएसबीसी इंडिया लीजेंड्स चैंपियनशिप में खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे।

यह देश में लीजेंड्स टूर की पहली प्रतियोगिता होगी। इसकी इनामी राशि पांच लाख डॉलर है और इसमें 2005 के अमेरिकी ओपन चैंपियन न्यूजीलैंड के माइकल कैम्बेल भी शिरकत करेंगे। इंडिया लीजेंड्स चैंपियनशिप के विजेता को 74,250 डॉलर जबकि उप विजेता को 49,000 डॉलर

मिलेंगे। तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी की शोली में 32,700 डॉलर आएंगे। यह प्रतियोगिता 54 होल को होगी और इससे पहले 28 और 29 अगस्त को प्रो-एम प्रतियोगिता खेले जाएंगी। लीजेंड्स टूर पेशेवर गोल्फ टूर है जिसमें 50 और इससे अधिक वर्ष के पुरुष गोल्फर हिस्सा लेते हैं। इसका संचालन पीजीए यूरोपीय टूर करता है। इसकी शुरुआत 1992 में यूरोपीय सीनियर टूर के रूप में हुई और 2020 में इस लीजेंड्स टूर नाम दिया गया। भारतीय पेशेवर गोल्फर (पीजीटीआई) से संयुक्त मान्यता प्राप्त इस टूर्नामेंट की मेजबानी जीव कर रहे हैं।

### अब 60 साल की उम्र तक गोल्फर में करियर

रंधावा ने कहा कि यह देश के गोल्फरों और सामान्य रूप से विश्व गोल्फ के लिए बहुत बड़ी है। 40 या 45 की उम्र तक गोल्फ करियर खत्म हो जाता है। लेकिन लीजेंड्स टूर के साथ आप 50 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद दूसरी पारी खेल सकते हैं। अब आप 60 साल की उम्र तक गोल्फ को करियर के तौर पर खेल सकते हैं।

गोल्फर संन्यास के बाद भी दस साल खेल सकते हैं रंधावा ने कहा कि केवल पैसा ही नहीं बल्कि एक गोल्फर लीजेंड्स टूर में खेलना जारी रखकर प्रतिस्पर्धा में भाग लेना भी बड़ा रसक है। उन्होंने कहा कि 'यह उम्मीदें हुए भारतीय गोल्फरों और एमेच्योर खिलाड़ियों के लिए अच्छा है। उन्हें अब पता है कि एक गोल्फर संन्यास के बाद भी 10 साल और खेल सकता है।'

### भारत टी20 विश्व कप के दुबई में दो अभ्यास मैच खेलेगा

एजेसी ▶▶ दुबई

भारत महिला टी20 विश्व कप से पहले दुबई में दो अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को यह घोषणा की। भारत 29 सितंबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा जबकि हरमनप्रीत कौर की टीम एक अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेंगी।

महिला टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली सभी 10 टीम दो-दो अभ्यास मैच खेलेंगी। अभ्यास मुकाबलों की शुरुआत 28 सितंबर को

## अभ्यास मैचों में भारत की भिड़ंत वेस्टइंडीज व दक्षिण अफ्रीका से



### अभ्यास मुकाबलों का कार्यक्रम इस प्रकार है

28 सितंबर: पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड (सेवेन, दुबई)  
28 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (आईसीसीए 1, दुबई)  
29 सितंबर: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (सेवेन, दुबई)  
29 सितंबर: भारत बनाम वेस्टइंडीज (आईसीसीए 2, दुबई)  
29 सितंबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (आईसीसीए 1, दुबई)  
30 सितंबर: श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड (सेवेन, दुबई)  
30 सितंबर: बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (आईसीसीए 2, दुबई)  
एक अक्टूबर: वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (सेवेन, दुबई)  
एक अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (आईसीसीए 2, दुबई)  
एक अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत (आईसीसीए 1, दुबई)

पाकिस्तान और स्कॉटलैंड तथा श्रीलंका और बांग्लादेश मैच के साथ होगी। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 29 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड और फिर एक अक्टूबर को दुबई में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा। अभ्यास मैच 20 ओवर के होंगे और इन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का दर्जा हासिल नहीं होगा जिससे प्रत्येक टीम को अपने सभी 15 खिलाड़ियों को मुकाबले में उतारने की स्वीकृति होगी। किसी भी स्प्री की दो टीम अभ्यास मैच के दौरान एक दूसरे से नहीं भिड़ेगी।

## तारिणी सूरी को टूर्नामेंट का मिला दोहरा खिताब

मुंबई। मुंबई की तारिणी सूरी ने हैदराबाद में हुए कोटक इंडिया जूनियर अंडर-19 अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के लड़कियों के युगल और मिश्रित युगल वर्ग का खिताब जीता। टूर्नामेंट का आयोजन हैदराबाद की गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में किया गया। सत्रह साल की तारिणी ने श्रावणी वालेकर के साथ मिलकर लड़कियों के युगल फाइनल में केयला पुत्री और मिशा वारडोयो की इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-10, 21-15 से हराया। तारिणी और भव्या छाबड़ा ने इसके बाद मिश्रित युगल फाइनल में उलटफेर



करते हुए अतावत श्रीपीठ और पनावी पोलियाम की थाईलैंड की शीर्ष वरीय जोड़ी को 21-13, 19-21, 21-14 से हराकर खिताब जीता। तारिणी उस भारतीय टीम का भी हिस्सा हैं जो 30 सितंबर से चीन के नानचेंग में विश्व जूनियर चैंपियनशिप

### यूई की परिस्थितियां टीम के लिए फायदेमंद होंगी

# टी20 विश्व कप में आखिरी बाधा पार करेंगे : हरमनप्रीत

एजेसी ▶▶ नई दिल्ली

कप्तान हरमनप्रीत कौर आशावादी हैं कि भारत आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के दौरान अपना पहला वैश्विक खिताब जीतेगी। उन्होंने कहा कि यूई की परिस्थितियां उनकी टीम के लिए फायदेमंद होंगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए तीन से 20 अक्टूबर तक होने वाले महिला टी20 विश्व कप को यूई में स्थानांतरित कर दिया था।



### 2020 में भारत ने फाइनल में जगह बनाई थी

हरमनप्रीत 2020 टी20 विश्व कप में भी भारत की कप्तान थीं जब टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने कहा, 'हम देखेंगे कि (वहां) परिस्थितियां कैसी रहती हैं और जितना जल्दी हो

हालात से सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे।' परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हरमनप्रीत चाहती हैं कि टीम विश्व कप में 'सकारात्मक' खेल दिखाए।

### अंतिम बाधा पार करने में होंगे सफल

हरमनप्रीत ने कहा, 'जब भी हम इस तरह के मंच (विश्व कप) पर खेलते हैं तो हम हमेशा अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमने अतीत में भी हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद करते हैं कि इस बार हम अंतिम बाधा को पार करने में सफल रहेंगे और खिताब जीतेंगे।' हरमनप्रीत को मंगलवार को टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।

### आयोजन स्थल के बदलाव को तवज्जो नहीं

पैंतीस साल की हरमनप्रीत ने टूर्नामेंट के आयोजन स्थल में बदलाव को अधिक तवज्जो नहीं दी और कहा कि यूई की परिस्थितियां भारत से काफी मिलती-जुलती हैं। उन्होंने कहा, 'हमने यूई में काफी क्रिकेट नहीं खेला है। लेकिन यूई की परिस्थितियां भारतीय परिस्थितियों के समान होंगी।'

संजीवनी टुडे

जम्मू-कश्मीर  
विधानसभा चुनाव

एजेसी नई दिल्ली

नगरोटा से राणा तो गुलाबढ़ आरक्षित सीट से ताल ठोकेंगे चौधरी


भाजपा ने 29 प्रत्याशियों की तीसरी तो नेकां ने 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की

उमर अब्दुल्ला गांवरबल से लड़ेंगे चुनाव



पौयन जोदी संमालेगे प्रचार की कमान

इससे पहले भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी थी। चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। सूची में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनय सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुख है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति इरानी और जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह के अलावा राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर अन्य प्रमुख चेहरे हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। यहाँ तीन चरणों में 18, 25 सितंबर और एक अक्टूबर को मतदान होगा और चार अक्टूबर को परिणाम आएगा।



हड्डा कदम से शमीन फिरदौस, ताल चौक से अहसान परदेसी, खानापोर से मुश्ताक गुरू, जडीबाल से तनवीर सादिक, ऐडवाइस से मुबारक मेदान में होंगे। खान साहिब विधानसभा सीट से सैफ-उद-दिन गट, चार ई शरीफ से अब्दुल रहमान रायोर, चआदूर से अली मोहम्मद दद, गुलाब धर (एसटी) से अर. खुर्राई और कलकोटे/ सुनडेरबानी से यशु वर्धन सिंह चुनाव लड़ेंगे। नौखर से सुरिन्दर चौधरी, बुधाल (एसटी) से जविद चौधरी और पुंड हवेली से अजाज अहमद जान मेदान में उतरेंगे।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 32 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इससे पहले पार्टी ने 18 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांवरबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। कंगन सीट से मेहर अली मेदान में होंगे। हजरतबल सीट से सलीम अली सागर चुनाव लड़ेंगे। खानापोर से आली मोहम्मद सागर, हड्डा कदम से शमीन फिरदौस, ताल चौक से अहसान परदेसी, खानापोर से मुश्ताक गुरू, जडीबाल से तनवीर सादिक, ऐडवाइस से मुबारक मेदान में होंगे। खान साहिब विधानसभा सीट से सैफ-उद-दिन गट, चार ई शरीफ से अब्दुल रहमान रायोर, चआदूर से अली मोहम्मद दद, गुलाब धर (एसटी) से अर. खुर्राई और कलकोटे/ सुनडेरबानी से यशु वर्धन सिंह चुनाव लड़ेंगे। नौखर से सुरिन्दर चौधरी, बुधाल (एसटी) से जविद चौधरी और पुंड हवेली से अजाज अहमद जान मेदान में उतरेंगे।


उमर ने मेनिफेस्टो की सामने रखा

बिजबेहरा सीट के लिए अपने उम्मीदवार बशीर अहमद वीरी के साथ जाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने अपना मेनिफेस्टो लोग के सामने रखा है। कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट तय किया। कोशिश ये रही कि भाजपा और उनके समर्थक दलों के खिलाफ मिलकर एक ही मोर्चा खड़ा करें और उनके खिलाफ चुनाव लड़ें ताकि कामयाबी की संभावना और ज्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पांच दस साल बहुत ज्यादा मेहनत की और वो तमना रखते थे नेकां की टिकट पर चुनाव लड़ना।

खबर संक्षेप

देश की सबसे अमीर महिला सावित्री लड़ेगी चुनाव

चंडीगढ़। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं। उन्हें भाजपा की ओर से हिसार विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। इससे लगातार दो बार से विधायक चुने जा रहे कमल गुप्ता का टिकट कट सकता है। 2014 के विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल को हराकर ही कमल गुप्ता विधानसभा पहुंचे थे।



सावित्री जिंदल को हराकर ही कमल गुप्ता विधानसभा पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट आईएमए के माफ़ीनामों पर नाराज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष आर वी अशोकन के माफ़ीनामों के प्रारूप की आलोचना की है। अशोकन ने पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने माफ़ीनामों की आलोचना की और कहा कि फॉन्ट छोटा है।

केजरीवाल की 3 तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। दिल्ली की आभकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राजेश एवेंयू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अगली सुनवाई 3 सितंबर को की जाएगी। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल के मीडिया मैनेजर ने साइड ग्रुप के साथ बातचीत की थी।

एचयूएल को थमाया 963 करोड़ रुपए का नोटिस

नई दिल्ली। रोजमर्रा के प्रोडक्ट बनाने वाली देश की रिमिग एफएमजीसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। आयकर विभाग से टैक्स नोटिस मिला है। आयकर विभाग से 962.75 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है। इसमें 329.3 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। बताया गया है कि यह राशि टीडीएस के नॉन डिडक्शन पर लगाया है।

लोगों ने मेयर के घर पर लगाया कूड़े का ढेर

कडपा। आंध्र प्रदेश के कडपा जिले के निवासियों ने मंगलवार को मेयर सुरेश बाबू के घर के सामने कूड़ा फेंककर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल, लोगों ने मेयर सुरेश बाबू के एक आदेश से गुस्सा होकर ही ये कदम उठाया। मेयर सुरेश बाबू ने कहा था कि घरों का कूड़ा तभी उठाया जाएगा जब लोग कूड़ा टैक्स चुकाएंगे। बस इसी का गुस्सा है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक राजेश मीणा द्वारा अम्बर ऑफसेट प्रा. लि., डी एल टॉवर, 3-ए, विद्याआश्रम संस्थानिक क्षेत्र, जेएलएन मार्ग, जयपुर से मुद्रित एवं बी-66, कुसुम विहार, जगतपुरा, मालवीया नगर, जयपुर से प्रकाशित। सम्पादक-राजेश मीणा, Email : sanjeevnitoday@gmail.com मो: 8094811115, (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)

बंगाल में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस पर ममता से सवाल पर बवाल

लोगों की आवाज को दबा रहा निरंकुश शासन न्याय की मांग पर पुलिस भांज रही लाटियां

मजूमदार और सुवेंदु ने कहा- महिला सुरक्षा की मांग पर बंगाल सरकार करवा रही लाठीचार्ज

एजेसी नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल में डॉक्टर रेप और मर्डर केस पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को 'नबन्ना प्रोटेस्ट' के दौरान कोलकाता में जमकर बवाल कटा। छात्रों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के बाद बंगाल के भाजपा प्रमुख सुकांता मजूमदार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया है। मजूमदार ने ये भी कहा कि वो प्रदर्शनकारियों की मदद करेंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद लाल बाग स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय पर छात्रों की रिहाई के लिए धरने पर बैठे मजूमदार ने कहा कि हमें आम हड़ताल का आह्वान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि यह निरंकुश शासन लोगों की आवाज को अनसुना कर रहा है, जो मृत डॉक्टर बहन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस राज्य के शांतिप्रिय लोगों के साथ बर्बर व्यवहार कर रही है, जो केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल चाहते हैं।



शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता की



ममता और पुलिस आयुक्त का हो पॉलीग्राफ टेस्ट

डॉक्टर के दुर्घटना-हत्या मामले में ममता पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। भाजपा ने ममता को 'तानाशाह' करार दिया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उनके हाथों की मांग की। मजूमदार ने यह भी मांग की है कि सीबीआई बेजार्नी और पुलिस आयुक्त विनोद गोयल को पॉलीग्राफ जांच कराए।

'नबन्ना' आंदोलन से सहमी बंगाल सरकार

अब ममता सरकार नुश्किलों में है। इस बीच छात्र संगठनों ने 'नबन्ना अभियान' निकाला है। कोलकाता में नबन्ना एक बिल्डिंग का नाम है, जो राज्य का सचिवालय भी है। 2011 में ममता बेजार्नी सरकार में आई तो उन्होंने एक नई बिल्डिंग को सचिवालय बनाया। यह बिल्डिंग बुलंदी नदी के किनारे स्थित है और इसे नबन्ना नाम दिया।

इस तरह शुरू हो गई झड़प



लाठीचार्ज किया। पानी की बौखारों और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथर और ईंट फेंकी। प्रदर्शनकारियों ने अवरोधकों को निरतों का प्रयास किया।

पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। उनकी पहचान हावड़ा पुलिस आयुक्तालय के चंडीतला थाने के प्रभारी के रूप में हुई है। हिरासत में आने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तिर-बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथर फेंके। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है।

भाजपा को खुशखबर

राज्यसभा में एनडीए को मिला बहुमत उपचुनाव में निर्विरोध जीते 11 प्रत्याशी

एजेसी नई दिल्ली

राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिल गया है। कारण, 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। ये असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटों पर और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना व ओडिशा की 1-1 सीट पर जीते हैं। इनमें भाजपा के 9, कांग्रेस का 1, एनसीपी (अजित पवार) का 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक सदस्य शामिल है। राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन के साथ बहुमत (119) को छू गया है।

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप करीना ने कोर्ट को दिया जवाब

कहा-किसी को टेस नहीं पहुंचाई

जबलपुर 10 सितंबर को जस्टिस जीएस अहलवालिया की कोर्ट में सुनवाई होगी। करीना ने 9 अगस्त 2021 को ये किताब लॉन्च की थी। किताब को अपना तीसरा बच्चा बताया था। जबलपुर के वकील क्रिस्टोफर एंथोनी ने 2022 में अर्जी देकर करीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन पर ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था।

वक्फ बोर्ड बिल पर सीएम नीतीश ने लिया यू-टर्न

पटना। मोदी सरकार के वक्फ

संशोधन विधेयक का लोकसभा में समर्थन और बचाव करने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पटना में मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति में जट्टू के प्रतिनिधि मुसलमानों की चिंताओं को उठाएंगे। 31 सदस्यीय जेपीसी में जेडीयू की तरफ से सुपौल के सांसद दिलेश्वर कर्मात मंबर हैं।

मीडिया, फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न का मामला

भाजपा की दो टूक: यौन उत्पीड़न के आरोपों पर इस्तीफा दें मुकेश

एजेसी नई दिल्ली।

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया फिल्म उद्योग में अभिनेताओं और निर्देशकों पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। गोपी ने कहा कि कहा कि मामला अदालत में है और अदालत ही फैसला लेगी। त्रिशूर में पत्रकारों से बात करते हुए गोपी ने यह आरोप लगाया। माकपा विधायक और अभिनेता एम. मुकेश पर लगे आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और वही इस पर फैसला लेगी।

कोलकाता मामले में कार्रवाई

ईडी ने भी शुरू की आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पड़ताल

एजेसी नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय कदाचार के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। यह जांच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य व्यक्तियों के कार्यकाल पर केंद्रित है। ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी (एफआईआर) से उपजी है। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत अपनी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की है।

ईडी ने कई स्रोतों से अस्पताल से जुड़े बैंकिंग और मेडिकल खरीद संबंधी दस्तावेज जुटाए हैं। ये दस्तावेज चल रही जांच के लिए अहम हैं। आरोपियों को पृष्ठताछ और उनके बयान दर्ज करने के लिए जल्द ही समन जारी किया जा सकता है। ईडी मामले में नामित व्यक्तियों का नाम सीबीआई की शिकायत में भी दर्ज है।

जोधपुर में भी कोलकाता जैसा कांड

अस्पताल परिसर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म राजस्थान के जोधपुर से बड़ी घटना सामने आई है। यहां महाना गांधी अस्पताल में एक नाबालिग ने नैगरेप का आरोप लगाया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी व एफएसएल टीमों को जांच के लिए बुलाया गया है। पीडित लड़की ने सफाई कर्मचारियों पर नैगरेप का आरोप लगाया है। अस्पताल में घटी दुष्कर्म और नैगरेप की घटना अत्यंत शर्मनाक और भयावह है। इस घटना ने एक नाबालिग लड़की के साथ अन्यायीयता की सभी सीमाएं पार कर दी गईं। पुलिस के अनुसार अस्पताल के अंदर ही इस घृणित अपराध को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से ही पुलिस और प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई का दबाव था। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है।

बेटे को रियायती जमीन मिलने का मामला गरमाया

भाजपा ने खरगे से मांगा अध्यक्ष पद से इस्तीफा, लगा दी सवालियों की बौछार

एजेसी नई दिल्ली

मुडा (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी कि इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भी टेंशन बढ़ चुकी है। खरगे के बेटे राहुल खरगे को आवंटित जमीन का मामले ने तूल पकड़ लिया है। राहुल को बंगलुरु के पास ऐरोस्पेस कालोनी में एसी-एसटी कोट के तहत रियायत पर जमीन दी गई थी। जमीन को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को रियायत दर पर जमीन कैसे दी जा सकती है?

मौसूर शहरी विकास प्राधिकरण का मामला

खरगे और परिवार पर आरोप गंभीर : भाजपा

इस मामले को लेकर भाजपा ने खरगे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता गौरव गांधिया ने कहा कि खरगे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उनके परिवार को एक घोटाले का आरोपी है। प्रियांक खरगे को एक सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। प्रथम बूटिया उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तीसरी बात, सिद्धारमैया, चाहे वह नुसत घोटाला हो, वार्ल्डविक विकास निगम घोटाला हो और अब यह तीसरा घोटाला, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए।

मोहनलाल समेत 17 सदस्यों का एएमएए से इस्तीफा न्यायमूर्ति हेमा कर्कोटी की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तूफान खड़ा कर दिया है। समिति की रिपोर्ट में इंडस्ट्री की महिलाओं के साथ उत्पीड़न को लेकर कई चौकाने वाले खुलासे हुए। मलयालम क्यूी ऑस्ट्रेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहनलाल और उनकी 17 सदस्यीय समिति ने नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए 27 अगस्त को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

और गोपी नाराज हो गए जब गोपी से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने गुस्से में उन्हें कथित तौर पर धक्का दिया। स्थानीय टीवी चैनलों पर प्रसारित वीडियो फुटेज में देखा गया कि गोपी अपने वाहन में बैठने की कोशिश कर रहे थे तभी कुछ पत्रकार उनके पास आते हैं। लेकिन गोपी उन्हें यह कहते हुए धकेल देते हैं, यह क्या कहा है? मेरा रास्ता मेरा अधिकार है। इसके बाद वे कुछ बोले बिना चले गए।